



प्रेस नोट

## 9 वर्ष से फरार इनामी अभियुक्त महाराष्ट्र से गिरफ्तार महाराष्ट्र एटीएस व उ.प्र. एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में अभियोग में वांछित 25000रु० का फरार इनामी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक : 7 जून, 2019

महाराष्ट्र एटीएस के सहयोग से उत्तर प्रदेश एटीएस की एक टीम ने आज दिनांक 7.6.19 की प्रातः 6 बजे मु.अ.सं.-01/2010, धारा-419, 420, 467, 468, 471, 114, 120 बी आईपीसी व 12(1) बी, 12(2) पासपोर्ट अधिनियम, थाना-एटीएस, लखनऊ में वांछित अभियुक्त रफीक उर्फ शफीक, पुत्र करीम, निवासी-बंजारी बाग, थाना-उतरौला, जनपद-बलरामपुर को जनपद-नागपुर के राजीव गाँधी नगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।

अभियुक्त रफीक उर्फ शफीक की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस महानिदेशक-उ.प्र.एटीएस द्वारा 25 000का इनाम घोषित किया गया था।

### विवरण

दिनांक 12.1.2010 को थाना-एटीएस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में रफीक उर्फ शफीक पुत्र करीम सहित कुल 9 व्यक्तियों के विरुद्ध फर्जी पता दर्शाकर पासपोर्ट बनवाने सहित अन्य आरोपों में मु.अ.सं.-01/2010, धारा-419, 420, 467, 468, 471, 114, 120 बी आईपीसी व 12(1) बी, 12(2) पासपोर्ट अधिनियम दर्ज कर गिरफ्तारी की गयी थी किन्तु अभियुक्त शफीक गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर

फरार हो गया था व नाम बदल कर रहने लगा था। शफीक के विरुद्ध माननीय न्यायालय लखनऊ द्वारा गैर जमानती वारंट (NBW) एवं धारा-82 सीआरपीसी की कार्यवाही की गई थी।

अभियुक्त शफीक की तलाश हेतु अभियोग के विवेचक के अनुरोध पर अपर पुलिस अधीक्षक एटीएस के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था। एटीएस की टीम को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ग्राउंड सर्विलांस के आधार पर सूचना प्राप्त हुई कि फरार अभियुक्त शफीक जनपद-नागपुर, अकोला मुंबई, महाराष्ट्र में नाम पता बदल कर रह रहा है। महाराष्ट्र एटीएस के सहयोग से शफीक को आज दिनांक 7.6.19 को प्रातः 6 बजे राजीव गाँधी नगर नागपुर से गिरफ्तार किया गया तथा थाना यशोधरा नगर नागपुर में रखकर अभियुक्त से पूछताछ की गयी।

### अभियुक्त का चित्र



पुराना चित्र



नया चित्र

अभियुक्त शफीक को स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर लखनऊ लाया जाएगा।

## गिरफ्तार करने वाली टीम

- महाराष्ट्र एटीएस
  1. API संजय नाइक
  2. पी.एन. सागर बैंस
  3. पी.एन.बबलू नरड
  4. पी.एन. परवेज खान
  5. डीपीसी अतुल गायकवाड
- उत्तर प्रदेश एटीएस
  1. निरीक्षक अरुण कुमार राय
  2. निरीक्षक कृष्ण मोहन राय
  3. हे.का. प्रवीण कुमार राय
  4. हे.का. लालधारी यादव
  5. का. मनीष सिंह
  6. का.अरुण कुमार यादव
  7. का. दिलीप कुमार

~राज करन नय्यर

SP UP ATS.  
9454402333

